

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-164/2019/18.—छ. ग. नगर पालिक निगम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिक निगम, जगदलपुर जिला बस्तर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है :-

1. नगर पालिक निगम, जगदलपुर को 48 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव वार्ड
2	महाराजा विजयचंद्र भंजदेव वार्ड
3	शिव मंदिर वार्ड
4	भैरम देव वार्ड
5	वीर सावरकर वार्ड
6	सरदार भगतसिंह वार्ड
7	सिविल लाईन वार्ड
8	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
9	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड
10	सदर वार्ड
11	प्रतापदेव वार्ड
12	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
13	बालाजी वार्ड
14	महारानी प्रफुल कुमारी देवी वार्ड
15	मोतीलाल नेहरू वार्ड
16	इंदिरा गांधी वार्ड
17	रम्मैया वार्ड
18	दलपत सागर वार्ड
19	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
20	मॉ दन्तेश्वरी वार्ड
21	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
22	महात्मा गांधी नगर वार्ड

23	गंगानगर वार्ड
24	पं. जवाहरलाल नेहरू नगर वार्ड
25	शांति नगर वार्ड
26	मदरटेरेसा वार्ड
27	माता संतोषी वार्ड
28	गुरु घासीदास वार्ड
29	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
30	स्वामी विवेकानंद वार्ड
31	ठाकुर अनुकुलदेव वार्ड
32	पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड
33	राजीव गांधी वार्ड
34	संजय गांधी वार्ड
35	छत्रपति शिवाजी वार्ड
36	गुरु गोविन्द सिंह वार्ड
37	लोकमान्य तिलक वार्ड
38	अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
39	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
40	डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड
41	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
42	महेन्द्र कर्मा वार्ड
43	बलीराम कश्यप वार्ड
44	मदन मोहन मालवीय वार्ड
45	शहीद गुण्डाधुर वार्ड
46	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
47	महाराणा प्रताप वार्ड
48	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड

## जगदलपुर, नगर पालिक निगम के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्र० — 01 महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव वार्ड

- उत्तर:— इन्द्रावती नदी की मध्यधार  
 पूर्व :— इन्द्रावती नदी की मध्यधार  
 दक्षिण:— धरमपुरा के छोर में हनुमान मंदिर से प्रारम्भ होकर दलपत सागर के प्रवेश द्वार तक, सोमारु के मकान से होते हुये पी तुलसी/पी नागु के मकान से होते हुये इन्द्रावती नदी तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी।  
 पश्चिम:— हनुमान मंदिर से अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कालीपुर की दक्षिणी सीमा तक ।

### वार्ड क्र० — 02 महाराजा विजयचन्द्र भंजदेव वार्ड

- उत्तर:— पुराना रायपुर रोड में मंजू के मकान से सीधा रोड होते हुये इन्द्रावती नदी की मध्यधार से प्रारम्भ होकर नदी के मध्य धार तक।  
 पूर्व :— महादेव घाट की खाई तक ।  
 दक्षिण:— दलपत सागर तिराहा से पावर हाउस चौक होते हुए बाएं दिशा की ओर इन्द्रावती नदी के किनारे तक तथा यहां से महादेव घाट की खाई तक ।  
 पश्चिम:— दलपत सागर तिराहा होकर शीतला माता मंदिर होते हुए श्रीमती रत्नी बाई के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा तक ।

### वार्ड क्र० — 03 शिव मंदिर वार्ड

- उत्तर:— इन्द्रावती नदी के नए पुल की ओर नदी के मध्य धार से राष्ट्रीय राजमार्ग में ग्राम आसना के तिराहे तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी ।  
 पूर्व :— ग्राम आसना के तिराहे से रायपुर-जगदलपुर के पुराने मार्ग में नदी के मध्यधार में महादेवघाट तक एवं कामक्षा मंदिर से प्रारम्भ होकर श्री रतनलाल जैन के मकान तक सड़क वार्ड की सीमा होगी ।  
 दक्षिण:— श्री रतनलाल जैन के मकान से कविनाथ के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी ।  
 पश्चिम:— श्री कविनाथ के मकान से प्रारम्भ होकर बालातराई घेरा होते हुए डोकरीघाट के दाहिने भाग होते हुए महादेव घाट के खाई तक ।

### वार्ड क्र० — 4 भैरम देव वार्ड

- उत्तर:— पावर हाउस रोड में श्री सोमनाथ पानीग्राही के मकान से कलेक्टर बंगला के पीछे के हिस्से तक की सड़क वार्ड की उत्तरी सीमा बनाते हुए नदी के मध्यधार तक ।  
 पूर्व :— केन्द्रीय जेल की सीमा का सम्पूर्ण क्षेत्र ।  
 दक्षिण:— लल्लु पाढ़ी के मकान से पंच पथ चौक से डी जे बंगला के आगे सर्किट हाउस रोड होते हुये केन्द्रीय जेल के बाउंड्रीवॉल के पास कच्ची रोड बाये ओर तक ।  
 पश्चिम:— लल्लु पाढ़ी के मकान से डॉ. सोनी क्लिनिक होते हुये शासकीय क्वार्टर होते हुये सामुदायिक भवन के दायें ओर से कामाक्षा मंदिर तक ।

**वार्ड क्र० – 5 वीर सावरकर वार्ड**

- उत्तर:- श्री दिलबाग राय के मकान से प्रारम्भ होकर श्री पापाराव के मकान से होते हुए नदी के मध्यधर तक ।
- पूर्व :- श्री बेनुधर के मकान से श्रीमती खाकदई के मकान तक वार्ड की सड़क सीमा होगी ।
- दक्षिण:- श्रीमती खाकदई के मकान से प्रारम्भ होकर हिंगलाजिन माता मंदिर होते हुए श्री अनवर खान के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी ।
- पश्चिम:- जेल अधीक्षक के मकान से होते हुये केन्द्रीय जेल की उत्तरी- पूर्वी सीमा से होते हुए तथा श्री कुलेश्वर प्रसाद पानीग्राही के घर से होते हुए नदी के मध्यधर तक ।

**वार्ड क्र० – 6 सरदार भगतसिंह वार्ड**

- उत्तर:- श्री कार्तिक राम नाग के मकान से प्रारम्भ होकर श्री विनोद ध्रुव के मकान तक सड़क वार्ड की सीमा तक ।
- पूर्व :- श्री शिवप्रयाग सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर श्री गंगाराम साव के मकान से होते हुए कुम्हड़ा कोट आरक्षित वन क्षेत्र तक ।
- दक्षिण:- श्री सोहन सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर श्री मलिक नाई के मकान तक वार्ड की सीमा तक ।
- पश्चिम:- श्री मलिक नाई के दुकान से श्री कार्तिक राम के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा तक ।

**वार्ड क्र० – 7 सिविल लाईन वार्ड**

- उत्तर:- जेल चौक से भंगाराम चौक होते हुये भगत सिंह वार्ड के दाये ओर होते हुये भगत सिंह स्कूल के बाजू से पी.टी.एस मैदान होते हुये सामुदायिक भवन से आगे खुला क्षेत्र होते हुये इन्द्रावती किनारे से नया पुलिया तक ।
- पूर्व :- नया पुलिया से आरक्षित वन क्षेत्र (कुम्हड़ा कोट) से होते हुये महाराणा प्रताप चौक तक ।
- दक्षिण :- महाराणा प्रताप चौक से लालबाग ग्राउन्ड लालबहादुर शास्त्री वार्ड के दाये ओर होते हुये अभियंता चौक होते हुये आबकारी कार्यालय से वायरलेस कार्यालय होते हुये पुराना बस स्टैण्ड (पालिका बाजार) तक ।
- पश्चिम :- पुराना बस स्टैण्ड (पालिका बाजार) से कृषि कार्यालय होते हुये जेल चौक तक ।

**वार्ड क्र० – 08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

- उत्तर:- आई०जी० बंगला के समीप स्थित चौक से गौरव पथ के दाये साईड से कुलदीप भदोरिया के मकान से होते हुए लालबाग चौक तक तथा लालबाग चौक से गणपति रिसार्ट तक
- पूर्व :- गणपति रिसार्ट से सतसंग व्यास के पीछे गोरिया बहार नाला होते हुये मंगडु कचोरा रोड में पुलिया तक ।
- दक्षिण:- पुलिया से वृन्दावन पार्क होते हुये एन० एच० 30 को पार कर इन्द्रावती टाईल्स वाली गली के दाये साईड में स्थित गोपाल सिंह ठाकुर के मकान से होते हुए पुनः आई०जी० बंगला के सामने स्थित चौक तक ।
- पश्चिम:- आई०जी० बंगला के सामने स्थित चौक तक ।

**वार्ड क्र० - 09 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड**

- उत्तर :- समुन्द चौक से श्रद्धा सुमन होटल होते हुये बालाजी मंदिर होते हुये राज हॉटल के सामने बलीराम दादा की मूर्ति से होते हुये पंच पथ चौक से दाये ओर डी जे बंगला के सामने दास के घर तक ।
- पूर्व :- डी जे बंगला के सामने वाली गली में दास के मकान से सोनी के घर तक ।
- दक्षिण :- सोनी के घर से दाये ओर दन्तेश्वरी मंदिर चौक से पुराना तहसीलदार बंगला से मस्जिद के सामने पार्क होते हुये हिन्दुजा किराना से श्रीवास्तव के मकान तक
- पश्चिम :- श्रीवास्तव के मकान होते हुये होण्डा शो रूम के पीछे से रानी गदिया होते हुये समुन्द चौक तक ।

**वार्ड क्र० - 10 सदर वार्ड**

- उत्तर:- हनुमान मंदिर से पुरातत्व विभाग होते हुये राजेन्द्र देवागन के मकान के सामने सोनी गली के दाये ओर होते हुये सर्किट हाऊस चौक (लो.नि.वि. कार्यालय) तक ।
- पूर्व :- सर्किट हाऊस चौक (लो.नि.वि.कार्यालय) से दाये ओर होते हुये शासकीय आवास भवन से स्टैट बैंक चौक तक ।
- दक्षिण:- स्टैट बैंक चौक से दाये ओर होते हुये रोड क्रॉस करते हुये जवाहर एजेंसी से कन्हैया बिकानेर से दाये ओर जैन मंदिर होते हुये बुधमल लुक्कड़ के मकान तक, जय स्तंभ चौक से विधायक कार्यालय तक ।
- पश्चिम:- विधायक कार्यालय से पुराना निगम कार्यालय होते हुये हनुमान मंदिर तक ।

**वार्ड क्र० 11 प्रतापदेव वार्ड**

- उत्तर :- गुरुनानक चौक से सदर स्कूल होते हुये एम.एल.बी. स्कूल होते हुये कुशल फर्नीचर जैन मंदिर रोड होते हुये पुतुलाल झा का मकान तक ।
- पूर्व :- पुतुलाल झा के मकान से कैरला होटल रोड होते हुये मोना लॉज चौदनी चौक तक ।
- दक्षिण :- मोना लॉज से न्यू नरेन्द्र टॉकिज होते हुये पनामा चौक अश्वनी सरडे जी का मकान तक ।
- पश्चिम :- अश्वनी सरडे जी के मकान होते हुये गुरुनानक चौक तक ।

**वार्ड क्र० - 12 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड**

- उत्तर:- कमिश्नर कार्यालय के पीछे श्री दमन गुप्ता की सीमेंट दुकान से लेकर वृन्दावन कालोनी की ओर राठौर के चार दीवारी तक ।
- पूर्व :- राठौर के चार दीवारी से वहीदा बेगम के मकान तक ।
- दक्षिण:- वहीदा बेगम के मकान से साई मंदिर गली होते हुये प्रमोद किराना से शिव मंदिर होते हुए तुलाराम के मकान से होकर तिरंगा चौक तक ।
- पश्चिम:- तिरंगा चौक के समीप श्री नन्दू दास के मकान से हिंगलाजिन मंदिर होते हुए तिराहे में श्री मदन गुप्ता की सीमेंट दुकान तक ।

**वार्ड क्र० - 13 बालाजी वार्ड**

- उत्तर:- स्टेट बैंक चौक से सिटी कोतवाली होते हुए वायरलेस कार्यालय के दाये ओर पुलिस पेट्रोल पम्प तक की सड़क वार्ड की सीमा तक ।
- पूर्व :- पुलिस पेट्रोल पम्प से जिला सहकारी बैंक से झंकार टाकीज के सामने रोड़ क्रास करते हुये पंजाब नेशनल बैंक से आगे शहीद पार्क के सामने तिराहे तक ।
- दक्षिण:- शहीद पार्क के सामने तिराहे से गुजराती भवन होते हुये पं.दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक काम्प्लेक्स से मोना लॉज के सामने चंदन एजेंसी तक ।
- पश्चिम:- चंदन एजेंसी से अजीज खान (सुविधा फर्नीचर) मकान से स्टेट बैंक चौक तक ।

**वार्ड क्र० - 14 महारानी प्रफुल कुमारी देवी वार्ड**

- उत्तर:- चांदनी चौक से दाएं साईड में कृषि उपज मंडी होते हुए कुम्हारपारा रोड के दाएं साईड में स्थित एफ०सी०आई० गोदाम तक ।
- पूर्व :- पूर्व में एफ०सी०आई० गोदाम के दाएं ओर से होते हुए भागवत दास के घर तक ।
- दक्षिण:- दक्षिण में पुनः भागवत दास के मकान से दाएं साईड में स्थित कृषि अभियांत्रिकी कार्या० होते हुए हिन्दसत प्रेस से गीता रंगानी की डेली निड्स की दुकान तक ।
- पश्चिम:- पश्चिम में गीता रंगानी की दुकान से चांदनी चौक रोड के दाएं ओर में स्थित नगर निगम हाईस्कूल होते हुए पुनः चांदनी चौक तक ।

**वार्ड क्र० 15 मोतीलाल नेहरू वार्ड**

- उत्तर :- संजय मार्केट चौक पर स्थित हनुमान मंदिर से जैन स्वीट्स होते हुये महारानी हॉस्पिटल की अंतिम दीवार तक ।
- पूर्व :- महारानी हास्पिटल की दीवार के किनारे से पी.एच.ई. कार्यालय से होते हुये सुरी सेल्स (टायर दुकान) तक ।
- दक्षिण :- सुरी सेल्स (टायर दुकान) से गुरुगोविन्द सिंह चौक पर स्थित शासकीय क्वाटर तक ।
- पश्चिम :- शासकीय क्वाटर से होते हुये दाऊ मिल के सामने से खिलेश्वर बिकानेर स्वीट होते हुये मनोरमा नर्सिंग होम के सामने से अग्रसेन चौक होते हुये हनुमान मंदिर तक ।

**वार्ड क्र० - 16 इंदिरा गांधी वार्ड**

- उत्तर:- शब्बीर एण्ड कम्पनी से सेन्ट्रल बैंक होते हुये मिताली स्टोर्स चौक तक ।
- पूर्व :- मिताली स्टोर्स चौक से संजय बाजार होते हुए श्री अग्रसेन चौक तक ।
- दक्षिण:- अग्रसेन चौक से अनुपमा छबिगृह चौक होते हुये गुप्ता हार्डवेयर दुकान तक ।
- पश्चिम:- गुप्ता हार्डवेयर दुकान से सोनी के घर होते हुये सरदार भजन सिंह के घर से रम्मैया वार्ड में दाये ओर होते हुये आकाश ट्रेडर्स से गुरुद्वारा चौक से शब्बीर एण्ड कम्पनी तक ।

**वार्ड क्र० 17 रम्मैया वार्ड**

- उत्तर :— दलपत सागर बण्ड से मछली पालन तालाब होते हुये सुलभ शौचालय तक।
- पूर्व :— सुलभ शौचालय से सरदार के लकड़ी डिपो तक।
- दक्षिण :— सरदार के लकड़ी डिपो से भोला झा के चार दीवारी होते हुये भवानी चॉट होते हुये हाड़िन नायक के मकान तक
- पश्चिम :— हाड़िन नायक के मकान से रामप्रसाद पटेल के मकान से दलपत सागर बण्ड तक।

**वार्ड क्र० 18 दलपत सागर वार्ड**

- उत्तर :— हनुमान मंदिर चौक (तालाब बंड) दाये ओर से समुन्द चौक होते हुये सुलभ शौचालय तक।
- पूर्व :— सुलभ शौचालय से तालाब बंड होते हुये रम्मैया वार्ड के दाये ओर होते हुये हाड़िन नायक के मकान से रोड़ क्रॉस करते हुये चित्रकोट रोड़ में कन्हैया किराना के बाजू गली से धरमपाल महावर के मकान होते हुये बी. आर. प्रधान के घर तक।
- दक्षिण :— बी.आर.प्रधान के घर से आई.एच.एस.डी.पी. आवास से लागू कालोनी तक।
- पश्चिम :— लागू कालोनी से कपूर लॉन से रोड़ क्रॉस करते हुये डाक्टर मौर्य के मकान के पास से सीधा तालाब बंड तक।

**वार्ड क्र० 19 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड**

- उत्तर :— कन्हैया किराना दुकान से अनुपमा टॉकिज होते हुये मनोरमा नर्सिंग होम तक।
- पूर्व :— मनोरमा नर्सिंग होम से भारत ट्रैक्टर सर्विस सेन्टर से गीदम रोड़ में गौसेया मस्जिद तक।
- दक्षिण :— गौसेया मस्जिद तक।
- पश्चिम :— गौसेया मस्जिद गली से पम्प हाऊस होते हुये शरीफ खान के मकान से निगम की दुकान होते हुये सक्सेस कान्वेंट से पाठ्य पुस्तक कार्यालय से कन्हैया किराना दुकान तक।

**वार्ड क्र० 20 मॉ दन्तेश्वरी वार्ड**

- उत्तर :— विद्यासागर के मकान से भोला झा के घर तक।
- पूर्व :— भोला झा के घर से पार्क चौक होते हुये विक्की ठाकुर के मकान होते हुये प्रेमवती के घर से गौसेया मस्जिद से गोयल के मकान तक
- दक्षिण :— गोयल के मकान से खुला क्षेत्र तक।
- पश्चिम :— काईस्ट कालेज से आई.एच.एस.डी.पी. आवास के दाये ओर बी.आर. प्रधान के मकान तक।

**वार्ड क्र० - 21 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

- उत्तर:- दन्तेश्वरी वार्ड की उत्तरी सीमा से खेत होते हुये डॉ.कश्यप के मकान के सामने दायीं ओर से साईं आटो तक। गोयल मिल के दायीं ओर से नारायण राव के मकान तक।
- पूर्व :- विद्या ज्योति स्कूल से पूर्व की ओर गुडविल ट्रेक्टर एजेन्सी तक सम्पूर्ण दाहिना क्षेत्र।
- दक्षिण:- गुडविल ट्रेक्टर एजेन्सी से महारानी लक्ष्मी बाई कन्या शाला क्र० 02 एवं दक्षिण पूर्व में उदयकांत झा के मिल से बहादुरगुड़ा मार्ग में लल्लन किराना होते हुये रेल्वे लाईन तक क्षेत्र।
- पश्चिम:- छत्रपति शिवाजी वार्ड की पूर्वी सीमा तक खुला कृषि क्षेत्र एवं परपा फारेस्ट नाका तक।

**वार्ड क्र० - 22 महात्मा गांधी नगर वार्ड**

- उत्तर:- उत्तर में महात्मा गांधी स्कूल से होते हुए गुरु गोंविंद सिंह चौक की दांयी ओर स्थित मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना की दुकान क्र० - 01 तक।
- पूर्व :- पूर्व में मुख्यमंत्री योजना की दुकान से आर०के० मार्बल होते हुए कोर्ट चौक में च्वाइस सेंटर तक।
- दक्षिण:- च्वाइस सेंटर से जिला पंचायत कार्यालय होते हुए अंतिम में अशोका हॉटल तक।
- पश्चिम:- अशोका हॉटल से दांये ओर चलते हुए गंगामुण्डा तालाब मेड़ से होते हुए राजु विश्वकर्मा किराना दुकान तक राजु किराना दुकान से मैहर सिंह के घर तक मैहर सिंह के घर से मुस्ताक अली के घर के सामने से होते हुये नारायण लाल के मकान तक।

**वार्ड क्र० - 23 गंगानगर वार्ड**

- उत्तर:- श्री हरिसन दास के मकान से प्रारम्भ होकर गीदम रोड़ में श्री शीतला हॉटल तक।
- पूर्व :- श्री शीतला हॉटल से रूखशाना बेगम के घर से होते हुये काशीराम शर्मा के घर होते हुये हरिनाथ के मकान के पास गंगामुण्डा तालाब के पार तक।
- दक्षिण:- गंगामुण्डा तालाब वार्ड की सीमा।
- पश्चिम:- गंगामुण्डा तालाब के पार से होते हुये बहादुरगुड़ा मार्ग में पम्प हाउस होकर श्री हरिसन दास के मकान तक।

**वार्ड क्र० - 24 पं. जवाहरलाल नेहरू नगर वार्ड**

- उत्तर:- फारेस्ट नर्सरी के पीछे वाली रेल्वे पटरी के दांये ओर से चलकर गंगामुण्डा तालाब मेड़ होते हुए भुवनवति ठाकुर के मकान तक।
- पूर्व :- भुवनवति ठाकुर के मकान से सहादेव के घर के पास से होते हुये गुरुजीत वर्मा के घर तक गुरुजीत वर्मा के घर से प्रभाशंकर के मकान से मेटगुड़ा सड़क पार कर जलील अहमद के घर से होते हुये पम्प हाउस तक।
- दक्षिण:- पंप हाउस से बोधघाट चौक की ओर जाने वाली एन.एच.रोड के दांये में स्थित पान ठेला तक।
- पश्चिम:- पान ठेला से जवाहर नगर स्कूल होते हुए लक्ष्मण राव के मकान से पुनः फारेस्ट नर्सरी तक।

**वार्ड क्र० - 25 शांति नगर वार्ड**

- उत्तर:- लाल चर्च से दन्तेश्वरी कालेज होते हुये सजावट वाले (मग्गु) के मकान तक
- पूर्व :- सजावट वाले(मग्गु) के घर की दिवाल से आगे जाकर शक्ति सिंह चौहान के घर के बाजू के रोड़ से पम्प हाऊस होते हुये ज्योतिमनी सिंग के घर से एन.एच. रोड़ तक।
- दक्षिण:- एन.एच. रोड़ से बस स्टैण्ड होते हुए इसाई कब्रिस्तान से नगर निगम होते हुये जिला न्यायालय तक ।
- पश्चिम:- जिला न्यायालय से लाल चर्च तक ।

**वार्ड क्र० - 26 मदरटेरेसा वार्ड**

- उत्तर:- भागसिंह के मकान से सोमागली के बायीं ओर से हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पीछे से जाते हुए राजकुमार के मकान से होते हुये अनिल बडकस के मकान तक ।
- पूर्व :- अनिल बडकस के मकान के सामने से होते हुये रोड पार कर चोपड़ा के मकान के बायें ओर से ठाकुर के मकान तक।
- दक्षिण:- ठाकुर से मकान से होते हुये पंचायत भवन के सामने होते हुये एल.आर. सिंह के मकान तक ।
- पश्चिम:- एल.आर.सिंह के मकान से होते हुये सोमागली तक।

**वार्ड क्र० - 27 माता संतोषी वार्ड**

- उत्तर:- उत्तर में कुम्हारपारा रोड़ के दाएं ओर स्थित शैलेन्द्र कुन्डु के मकान से होते हुए डण्डामी माडिया चौक तक ।
- पूर्व :- पूर्व में डण्डामी माडिया चौक के दाये ओर से बाईपास रोड होते हुए अनिमा बी अब्दुल रसीद के मकान तक ।
- दक्षिण:- अनिमा बी अब्दुल रसीद के घर से दाएं साईड में स्थित अरुण त्रिपाठी के घर होते हुए डी०के० परासर के मकान तक ।
- पश्चिम:- दण्डकारण्य प्रेस रोड के दाएं ओर में स्थित डी०के० परासर के मकान से होते हुए दाएं साईड में स्थित कुषवाहा के मकान तक तथा कुषवाहा के घर से पश्चिम उत्तर की सी०सी० सडक में खेतमल भूरड के मकान से होते हुए बाबुलाल के मकान से शैलेन्द्र कुन्डु के मकान तक ।

**वार्ड क्र० - 28 गुरु घासीदास वार्ड**

- उत्तर:- जमाल मिल के पश्चिमी कोने से कोसा सेन्टर का पिछवाड़ा होते हुए श्री धीरेन्द्रनाथ वैद्य के मकान होते हुए भवानी चौक से होते हुए भंजमन राठौर के मकान तक ।
- पूर्व :- भंजमन राठौर के मकान से मुन्नालाल के मकान तक ।
- दक्षिण:- मुन्नालाल के मकान से रोड़ पार कर निगम दुकान के दाये ओर होते हुये जमाल मिल के तिराहा तक
- पश्चिम:- जमाल मिल तिराहा ।

**वार्ड क्र० - 29 डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड**

- उत्तर:- तिरंगा चौक के पास में स्थित पाठक के मकान से होते हुए दाये ओर में कबीर चौक तक ।
- पूर्व :- कबीर चौक दाये ओर से चंदन राठौर चाट वाले का घर से होते हुए शीतल गुप्ता के मकान तक ।
- दक्षिण:- दांये ओर में स्थित शीतल गुप्ता के मकान से होते हुए कोसी थामस के घर तक ।
- पश्चिम:- कोसी थामस के घर से राजू आटो केयर की दुकान होते हुए पुनः तिरंगा चौक में स्थित पाठक के घर तक ।

**वार्ड क्र० - 30 स्वामी विवेकानंद वार्ड**

- उत्तर:- एयरपोर्ट चार दीवारी से जैन्स पानी के मकान से बाये ओर होते हुये रामप्रवेश शर्मा के मकान से एयर पोर्ट दिवाल तक ।
- पूर्व :- रामलला सर्विसिंग सेन्टर होते हुये यू.आर. देहारी के मकान से होते हुये चन्द्रमा नरसिंग के मकान से जैपुरिया होटल तक ।
- दक्षिण:- जैपुरिया हॉटल, श्री रामचन्द्र का मकान होकर श्री शेख महमूद के मकान तक ।
- पश्चिम:- शेख महमूद के मकान से लेकर एयरपोर्ट तक ।

**वार्ड क्र० - 31 ठाकुर अनुकुल देव वार्ड**

- उत्तर:- श्रीमती रयमती के मकान से श्री पदमसिंह का मकान होते हुए संतोष किराना स्टोर्स से होमगार्ड केम्प होते हुए करकापाल रेल्वे लाईन तक ।
- पूर्व :- गोरिया बहार नाला
- दक्षिण:- रेल्वे लाईन ।
- पश्चिम:- आरक्षित वन क्षेत्र एवं पं० सुन्दरलाल शर्मा वार्ड की सीमा ।

**वार्ड क्र० - 32 पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड**

- उत्तर:- एयरपोर्ट के पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर शिव मंदिर होते हुए बोधघाट कालोनी में श्री शिरिस बेहरा के मकान से होते हुए श्री आर०सी० खत्री के मकान से स्व० श्री पोला सिंह के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी ।
- पूर्व :- एयरपोर्ट की दक्षिण कोने से लेकर आरक्षित वन क्षेत्र होते हुए रेल्वे लाईन तक ।
- दक्षिण:- रेल्वे लाईन ।
- पश्चिम:- रेल्वे लाईन से प्रारंभ होकर हनुमान मंदिर के तिराहे में स्व० श्री पोला सिंह के मकान तक की सड़क ।

**वार्ड क्र० - 33 राजीव गांधी वार्ड**

- उत्तर:- नगर निगम की दुकान के सामने रिक्त भूमि की वाउड्रीवॉल से गुरुनानक स्टील फैक्ट्री होते हुए विमल एसोसियेट तक ।
- पूर्व :- विमल एसोसियेट से राईस मिल के दांये साईड से टायर दुकान के बाजू गली में पुनः दांये साईड को लेते हुए बादल सरकार के घर से होते हुये अजय सिंह के घर से आगे राजाराम सिंह ठाकुर के घर तक ।
- दक्षिण:- राजाराम सिंह ठाकुर के घर से थामस किराना दुकान होते हुये बाघ के मकान होते हुये तिरुपत झाड़ी के घर होते हुये सी.सी. रोड तक ।
- पश्चिम:- धर्म आस्था कुंज होते हुये नगर निगम की दुकान के सामने रिक्त भूमि की वाउड्रीवॉल के रोड तक ।

**वार्ड क्र० - 34 संजय गांधी वार्ड**

- उत्तर:- मीना लांडरी से पुराना बोधघाट थाना रोड के दांये ओर जाते हुए रोशन किराना स्टोर तक ।
- पूर्व :- बोधघाट चौक में स्थित रोशन किराना स्टोर से सरगीपाल रोड के दांये ओर जाते हुए रेल्वे फाटक तक ।
- दक्षिण:- रेल्वे फाटक से नगरपालिक निगम अंतिम छोर से होते हुए रेल्वे स्टेशन तक ।
- पश्चिम:- रेल्वे स्टेशन से होते हुए पुनः मीना लांडरी तक ।

**वार्ड क्र० - 35 छत्रपति शिवाजी वार्ड**

- उत्तर:- चित्रकोट रोड में मुख्य मार्ग शंकर मंदिर से कुंडल राव के मकान से होते हुये मनोविकास विद्यालय के दांयी ओर से वर्मा के घर तक ।
- पूर्व :- वर्मा के मकान से होते हुये डॉ. कश्यप के मकान से बैलाडीला रेस्टहाऊस से कलावती के मकान तक ।
- दक्षिण:- कलावती के मकान से दाहिनी ओर मरघट होते हुये सुषमा कश्यप के मकान के दांयी ओर से शिशु मंदिर के पीछे तक ।
- पश्चिम:- शिशु मंदिर के दांयी ओर होते हुये पंडरी तालाब से एम.पी.एम. अस्पताल होते हुये मेन रोड शंकर मंदिर तक ।

**वार्ड क्र० - 36 गुरु गोविन्द सिंह वार्ड**

- उत्तर :- हिरणवार के मकान से दांयी ओर होते हुये कैलाश होटल से रूपा साइकिल दुकान तक ।
- पूर्व :- रूपा साइकिल दुकान से पूर्व माध्यमिक शाला अघनपुर से कोरिन जप्पन के मकान तक ।
- दक्षिण :- कोरिन जप्पन के मकान से पश्चिम की ओर गोपाल भारद्वाज के घर के पीछे तक ।
- पश्चिम :- गोपाल भारद्वाज के मकान के सामने से होते हुये ग्रीनसिटी की दांयी ओर से होते हुये हिरणवार के मकान तक ।

**वार्ड क्र० - 37 लोकमान्य तिलक वार्ड**

- उत्तर :- पल्ली नाका के दायीं ओर से धरमपुरा क्रमांक 2, शंकर मंदिर उर्वशी पांडे के मकान तक।
- पूर्व :- देव गुडी एल.आई.सी. सडक के दायीं ओर से होते हुये नारमुंडा तालाब के दायीं ओर तक।
- दक्षिण :- नारमुंडा तालाब से होते हुये दायीं ओर आरक्षित वन।
- पश्चिम :- आरक्षित वन से होते हुये पल्लीनाका तक।

**वार्ड क्र० - 38 अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड**

- उत्तर:- कालीपुर तालाब से सरिता यादव के मकान तक।
- पूर्व :- सरिता यादव के मकान से हनुमान मंदिर होते हुये दलपत सागर बंड होते हुये डॉ.मौर्य के मकान तक।
- दक्षिण:- डॉ. मौर्य के मकान से पुरातत्व विभाग कार्यालय तक।
- पश्चिम:- पुरातत्व विभाग कार्यालय से दाये ओर आलोक राय के मकान से मरघट के दाये ओर दुर्गा मंडप होते हुये कालीपुर तालाब तक।

**वार्ड क्र० - 39 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड**

- उत्तर :- नगर निगम कर्मचारी भवन के दायीं ओर से वीरसावरकर भवन से होते हुये सूर्य मंदिर के पीछे विनोद कुकड़े के मकान तक।
- पूर्व :- विनोद कुकड़े के मकान से होते हुये निर्मल दुर्जन के मकान से मोहना अधिवक्ता मार्ग होते हुये जमाल मिल रोड तक।
- दक्षिण :- जमाल मिल रोड पटेल साँ मिल के बायीं ओर से होते हुये शहीद पार्क के दाये ओर में पी.डब्लु.डी. क्वाटर तक।
- पश्चिम :- पी.डब्लु.डी. क्वाटर से निगम दुकान होते हुये नगर निगम कर्मचारी भवन तक।

**वार्ड क्र० - 40 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड**

- उत्तर:- सुवर्धन के घर के पीछे सनसिटी के चार दिवारी से समानांतर महावीर गृह निर्माण समिति के चार दिवारी से सीधे मे इन्द्रावती टाईल्स के दक्षिण कोने में राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर गोरिया बहार नाला तक।
- पूर्व :- गोरिया बहार नाला।
- दक्षिण:- गोरिया बहार नाला से राष्ट्रीय राजमार्ग पार एयर पोर्ट की चार दिवारी तक एयरपोर्ट की उत्तरी दीवाल के कोने से श्री हेमाणी के खुली भूमि से श्रीमती त्रिपुरा तिवारी के मकान से श्यामा दास (जमाल मिल रोड) मकान से सुवर्धन घर तक (मोना अधिवक्ता गली) तक।

**वार्ड क्र० 41 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

- उत्तर :- हरिहर बाजार से ड्रीम इंडिया स्कूल से चित्र गुप्त मंदिर होते हुये सरकारी क्वाटर होते हुये श्रीकांत आचार्य के मकान होते हुये कुलदीप सिंह के मकान से एन.एच. 30 तक ।
- पूर्व :- एन.एच. 30 से साईनाथ कामर्शियल तक ।
- दक्षिण:- नगर निगम कर्मचारी भवन के सामने रोड से बड़ा नाला होते हुये मोहन महाराज के घर की सीमा होते हुये सनसिटी, सूर्य मंदिर होते हुए अटल आवास सम्पूर्ण क्षेत्र ।
- पश्चिम:- हरिहर बाजार से निर्मल विद्यालय होते हुये नगर निगम कर्मचारी भवन के सामने रोड तक ।

**वार्ड क्र० 42 महेन्द्र कर्मा वार्ड**

- उत्तर :- नूरमोहम्मद के घर से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान होते हुए काली बाड़ी रोड को पार कर मनोरंजन राय के घर तक ।
- पूर्व :- पुनः फूलचंद्र शारथी के मकान से रामदेव मंदिर के बाएं गली से होते हुए नूरमोहम्मद के घर तक ।
- दक्षिण:- राजेश थनथाराटे के मकान से सुरेश अरोडा का मकान होते हुए फूलचंद शारथी के घर तक ।
- पश्चिम:- मनोरंजन राय के घर से बंगीय समाज भवन होते हुए काली बाड़ी रोड चौक में स्थित कलावती पटनायक के घर से होते हुए राजेश थनथाराटे के मकान तक

**वार्ड क्र० 43 बलीराम कश्यप वार्ड**

- उत्तर :- कृष्णा सोनी के मकान से (हाईवे चैनल रोड) के दाहिनी ओर होते हुये साई मंदिर से बायीं के ओर मुड़कर समीर चौधरी एडवोकेट के ऑफिस से होते हुये प्रकाशचंद जैन के मकान तक ।
- पूर्व :- नगरपालिक निगम यात्री प्रतीक्षालय (बाई पास रोड) से वेयर हाउस होते बायीं ओर होते हुए साकेत कालोनी के दीवार की अंतिम छोर तक ।
- दक्षिण:- साकेत कालोनी की दीवार के अंतिम छोर से होते हुए बोधघाट चौक की ओर जाने वाली रोड के दाँए साईड में स्थित आकाशवाणी आवास परिसर तक ।
- पश्चिम:- आकाशवाणी आवास परिसर (विपरा) रोड के दाँए साईड होते हुए कृष्णा सोनी के मकान तक ।

**वार्ड क्र० 44 मदन मोहन मालवीय वार्ड**

- उत्तर :- कलेक्ट्रेट रोड मेथोडिस्क चर्च के दाहिनी ओर से कमिश्नर कार्यालय बाउंड्रीवॉल तक ।
- पूर्व :- कमिश्नर कार्यालय के पीछे पाठक किराना के दाहिनी ओर होते हुये नीलमणि (भूतपूर्व पार्षद) के मकान से पत्रिका कार्यालय तक (किसान बेकरी) ।
- दक्षिण :- पत्रिका कार्यालय के पीछे दाहिनी ओर से होते हुये मसीह दास के मकान तक (सारोन ब्यूटी पॉर्लर) ।
- पश्चिम :- मसीह दास के मकान से दाहिनी ओर से नंदू के मकान होते हुये सोमा गली से होते हुये नर्सिंग छात्रावास से ए.बी.एम. मिशन स्कूल से कमिश्नर ऑफिस के बाउंड्रीवॉल तक ।

**वार्ड क्र० 45 शहीद गुण्डाधुर वार्ड**

- उत्तर :- प्रिंस वेल्डिंग दुकान से चौधरी सीमेन्ट होते हुये अतिथि होटल से आगे रिखा होटल होते हुये गोंदी के वाउड्रवॉल तक ।
- पूर्व :- गोंदी के वाउड्रवॉल से सुन्दर पोयाम के मकान होते हुये केरला समाज बाजू गली से होते हुये अम्मीलाल की वाउड्रवॉल होते हुये साव के किराना दुकान तक
- दक्षिण :- साव के दुकान होते हुये तिवारी के मकान तक ।
- पश्चिम :- तिवारी के मकान से मारानाथा चर्च के बाजू सड़क होते हुये श्रीवास्तव के मकान के सामने सी.सी. सड़क होते हुये बोधघाट कालोनी रोड़ से प्रिंस वेल्डिंग तक ।

**वार्ड क्र० 46 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड**

- उत्तर :- गंगामुंडा मेड़ पर स्थित सोमारु राम के मकान से संजय मिश्रा के मकान से होते हुए ताराकान्त झा के मकान तक ।
- पूर्व :- ताराकान्त झा के मकान से होते हुए संगीत विद्यालय तक ।
- दक्षिण :- संगीत विद्यालय से ट्रेक्टर एजेन्सी के बाजू से आभिनंदन पार्क रोड़ होते हुये देवेन्द्र ठाकुर के मकान से होते हुये मोहन ठाकुर के मकान तक ।
- पश्चिम :- मोहन ठाकुर के मकान से होते हुए सोमारु राम के मकान तक ।

**वार्ड क्र० 47 महाराणा प्रताप वार्ड**

- उत्तर :- रजत जयंती डोंगरी से होते हुये नारायण कुमार के मकान से होते हुये दायीं ओर से होते हुये जैन किराना स्टोर होते हुए प्राथमिक शाला से गिट्टी खदान के दायीं ओर से सिकंदर सिंह के मकान तक ।
- पूर्व :- गीदम रोड में सिकंदर सिंह के मकान से दांयी ओर पाँचवी बटालियन तक होते हुये बालाजी कोल्ड स्टोरेज तक ।
- दक्षिण :- बालाजी कोल्ड स्टोरेज के पीछे से दायीं ओर खेत होते हुए खपरा भट्टी तक ।
- पश्चिम :- खपरा भट्टी से होते हुए पुनः रजत जयंती डोंगरी नारमुंडा तालाब तक ।

**वार्ड क्र० 48 कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड**

- उत्तर :- अटल आवास के पीछे से होते हुए क्रीडा परिसर से रेशम बोर्ड होते हुये कालीपुर तालाब रोड़ होते हुये दुर्गा मड़प चौराहा तक ।
- पूर्व :- दुर्गा मड़प चौराहा से उत्तर की ओर उमेश पानीग्राही के मकान से होते हुए ग्रामीण बैंक तक ।
- दक्षिण :- ग्रामीण बैंक से चित्रकोट रोड पर स्थित ठाकुर किराना स्टोर तक ।
- पश्चिम :- ठाकुर किराना दुकान से नेंगीगुड़ा चौक से होते हुए पुनः अटल आवास तक ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 1-164/2019/18 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-164/2019/18, दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

### NOTIFICATION

No. : F 1-164/2019/18.-In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 10 of the chhattisgarh municipal corporation act 1956 (No.23 of 1956) the State Government hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation, Jagdalpur Distt. Bastar as per schedule given Below :-

1. Divides Municipal Corporation, Jagdalpur into 48 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

### SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Ward
2	Maharaja Vijaychandra Bhanjdev Ward
3	Shiv Mandir Ward
4	Bhairam Dev Ward
5	Veer Savarkar Ward
6	Sardar Bhagatsingh Ward
7	Civil Line Ward
8	Lal Bahadur Shastri Ward
9	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
10	Sadar Ward
11	Pratap Dev Ward
12	Ravindranath Tagore Ward
13	Balaji Ward
14	Maharani Praful Kumari Devi Ward

15	Motilal Nehru Ward
16	Indira Gandhi Ward
17	Rammaiya Ward
18	Dalpat Sagar Ward
19	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
20	Maa Danteswari Ward
21	Dr. Rajendra Prasad Ward
22	Mahatma Gandhi Nagar Ward
23	Ganganagar Ward
24	Pt. Jawaharlal Nehru Ward
25	Shanti Nagar Ward
26	Motherteresa Ward
27	Maata Santoshi Ward
28	Guru Ghansidas Ward
29	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
30	Swami Vivekanand Ward
31	Thakur Anukuldev ward
32	Pt. Sunderlal sharma ward
33	Rajiv Gandhi Ward
34	Sanjay Gandhi Ward
35	Chhatrapati Shivaji ward
36	Guru Govind Singh Ward
37	Lokmanya Tilak Ward
38	Atal Bihari Vajpayee Ward
39	Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward
40	Dr. A P J Abdul Kalam Ward
41	Chandrashekhar Azaad Ward
42	Mahendra Karma Ward
43	Baliram Kashyap Ward
44	Madan Mohan Malviya Ward
45	Shahid Gundadhur Ward
46	Sardar Vallabhbhai Patel Ward
47	Maharana Pratap Ward
48	Kushabhau Thakre Ward

**Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Corporation,  
Jagdalpur.**

**Ward No. – 1 Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Ward**

- North - Middle stream of River Indravati.  
 East - Middle stream of River Indravati.  
 South - Starting from Hanuman temple in the end of Dharampura to the entrance of Dalpat Sagar, by the house of Somaru, by the house of P.Tulsi/ P.Nagu, to the extent of the road limit of Indravati river.  
 West - Starting from Hanuman mandir via east limit of Atal Bihari Bajpai ward till south of Kalipur village.

**Ward No. -2 Maharaja Vijaychandra Bhanjdev Ward**

- North- From the house of Manju in the purana Raipur road to the middle stream of the river, Starting from the mid- edge of the river.  
 East- Till the deep set of Mahadev Ghat.  
 South- From power house chowk ,the tiraha of Dalpat sagar it extended up to the left corner of Indarvati river and end up to the trench of Mahadev Ghat.  
 West- From Dalpat sagar tiraha it extended up to Sitala Mata mandir, also goes up to the border of road limit ward of Smt. Ratni Bai's house.

**Ward No. 3 Shiv Mandir Ward**

- North- From the Mid stream of New Bridge of Indravati River Via National highway up to limit three way path of Village Asana.  
 East- From three way path of village Asana old road of Raipur – Jagdalpur up to the middle stream till Mahadev Ghat and starting from Kamaksha mandir up to residence of Shri Ratanlal Jain's house up to Road ward boundary.  
 South- The ward limit extends from shri Ratanlal jain's house to Shri Kavinath house.  
 West- Starting from Shri Kavinath's house via Balatrai premises, right of Dokarighat, till the deep set of Mahadev Ghat.

**Ward No. 4 Bhairam Dev ward**

- North- From the house of Shri Somnath Panigrahi in power house road forming a north limit behind collector bungalow up to the mid stream of the river.  
 East- Whole area of Central Jail region.  
 South- From the house of Lallu Padhi to panch path chowk to D. J. Bungalow, From circuit house road to the left side near kachcha road of Central Jail.  
 West- From the house of Lallu Padhi to Dr. Soni clinic to Govt. quarter and extended up to Kamaksha mandir from the left side of Samudaik bhavan.

**Ward No. 5 Veer Savarkar Ward**

- North- Starting from Shri Dilbagh Rai's house via Shri Papa Rao's house to midstream of the river.
- East- From Shri Benudhar house to Smt. Khakdai's house road ward limit.
- South- Starting from Smt. Khakdai's house via Hinglajin Mata Mandir to Shri Unwar Khan's house road ward limit.
- West- Through the house of the Jail Superintendent, through the north-eastern border of the central jail to the home of Shri Kuleshwar Prasad Panigrahi till the midstream of the river.

**Ward No. 6 Sardar Bhagatsingh Ward**

- North- Starting from Shri Kartik Ram Nag's house to Shri Vinod Dhruw's house limit.
- East- Starting from Shri Shivprayag Singh's house via Shri Ganga Ram Sao' house up to Kumhada kot Reserved forest area.
- South- Starting from Shri Sohan Singh's house up to Shri Malik Nai's house up to ward limit.
- West- Starting from Shri Malik Nai's Shop up to Shri Kartik Ram's house road.

**Ward No. - 7 Civil Line Ward**

- North- Starting from the Jail chowk to Bhangaram chowk extended up to the right corner of Bhagat Singh school to P.T.S ground via Samudaik bhavan far to the open area via corner of Indarvati up to naya puliya.
- East- From the naya puliya to Arakchhit van chhetra (Kumhada Kot) extended up to the Maharana Pratap chowk.
- South- Starting from Maharana Pratap chowk, on the right side of Lal Bahadur Shastri ward via Abhiyanta chowk via excise office to wireless office up to the purana bus stand (Palika Bazaar).
- West- Starting from the old bus stand (Palika Bazaar) to Agriculture office up to the Jail chow

**Ward No - 8 Lal Bahadur Shastri Ward**

- North - From near chowk of I G bungalow to right side of Gourab path and way to Kuldeep bhadoria's house to Lal Bagh chowk and Lal'bagh chowk to Ganpati Resort
- East - Ganpati Resort to Satsang Vyash back, from Gorla Bahar Nala to Mangundu Kachora Road to Pulia.
- South - Crossing NH 30, passing through the Vrindavan Park , entering the street with Indravati tiles, through the house of Gopal Singh Thakur situated in the right-hand corner of the street, Again to the Chowk situated in front of IG Bungalow.
- West - In front of I.G. Bungalow up to the chowk.

**Ward No. – 9 Netaji Subhash Chandra Bose Ward**

- North- From Samund chowk to Shardha Suman hotel, crossing the Balaji Mandir from the statue of Baliram Dada in front of Raj hotel, from the right side of Panch path chowk up to the front of D.J. Bungalow, Das house.
- East-south- In the front gali of D. J. Bungalow, Das house to Soni house. From the right side of Soni house, from the Danteshwari mandir chowk, from the old Tehsildar bungalow, from the park in front of Masjid, from the Hinduja provision shop to the Shrivastav house.
- West- From the house of Shrivastav, at the back of Honda showroom, Rani gadiya up to Samund chowk.

**Ward No. 10 Sadar Ward**

- North- Starting from the hanuman mandir to Puratatav vibhag, on the right side gali of Soni, in front of Rajendra Dewangan house up to the circuit house chowk (P.W.D office).
- East- On the right of circuit house chowk (P.W.D office), Govt. quarters up to the state bank chowk.
- South- Towards the right side of S.B.I. chowk, crossing the road from Jawahar agency on the right side of Kanahiya Bikanair, from Jain mandir up to the house of Bhudhmal Lunkad, Jai stambh chowk to M. L. A office.
- West- From M.L.A office, old Nigam office to Hanuman mandir.

**Ward No. – 11 Pratap Dev ward**

- North - From Gurunanak chowk, via Sadar school via M.L.B. school via Kushal furniture Jain mandir road up to the house of Putulal Jha.
- East - Starting from the house of Putulal Jha , from Kerala hotel road up to the Mona lodge Chandini chowk.
- South- Starting from Mona lodge via new narendra theater passing through the house of Aswani Sarade ji, panama chowk.
- West- Starting from Aswani sarade house to Gurunanak chowk .

**Ward No. 12 Ravindranath Tagore Ward**

- North- Starting from Shri Madan Gupta's Cement Shop behind Commissioner office via Vrindavan Colony upto the four walls of Rathor's house.
- East- Starting from the four walls of Rathor's house to the house of Vahida begum.
- South- From the house of Vahida Begum, from the gali of Sai mandir , from the shiv mandir to Pramod kirana, crossing through the house of Tula Ram up to the Tiranga Chowk.
- West- Starting from Shri Nandu Das house near Tiranga Chowk via Hinglajin Mata mandir up to Shri Madan Gupta's Cement Shop in three-path road.

**Ward No. 13 Balaji Ward**

- North- From S.B.I chowk, crossing city kotwali, on the right side of Wireless office up to the limit road ward of Police petrol pump .
- East- From the Police Petrol pump via Jila Sahakari bank, crossing the front road of Jhankar Talkies , far from P.N.B. Bank to the front of Sahid park in three path.
- South- Starting from three-way path of Shaheed Park via Gujarati Bhavan, from Pt. Dindayal Upadhyay business complex up to front of Mona lodge, Chandan agency.
- West- Up to the Chandan agency, from the house of Ajij Khan(Suvidha furniture) to S.B.I. Chowk.

**Ward No. – 14 Maharani Praful Kumari Devi Ward**

- North - From the right of Chandni chowk to Krishi Upaj mandi, kumhar para road south phase line to F.C.I.godam.
- East - From the east of F.C.I. godam up to Bhagwat Das house.
- South - From the right side of Bhagwat Das house to Krishi Ayantriki office to Hindsath press to Geeta Rangari daily needs shops.
- West - From the chandini chowk road,Geeta rangari shop to Nagar Nigam High school again upto Chandni chowk.

**Ward No. – 15 Motilal Nehru Ward**

- North - Hanuman Mandir situated at Sanjay market chowk to Jain sweets to the end of Maharani hospital boundary wall.
- East - Maharani hospital boundary wall P.H.E. office to Suri sells (tyre shops).
- South - Suri sells (tyre shop) to Gurugovind Singh chowk upto Govt. quarter.
- West - Crossing the Govt. Quarter from the front of Dau mill,, crossing the khilleshwar Bikanair sweet, from the front of Manorama clinic to Agarsan chowk up to Hanuman mandir.

**Ward No. 16 Indira Ghandhi Ward**

- North- Crossing the central bank to Shabbir & company up to Mithali stores Chowk.
- East- Starting from Mithali Stores via Sanjay Bazaar up to Shri Agrasen Chowk road.
- South- Starting from Shri Agrasen chowk upto Anupama Theatre chowk up to Gupta hardware shop.
- West- From the Soni house to Gupta Hardware shop, from the right in Rammiya ward to the house of Sardar banjan singh, from Akaash Traders to gurudwara chowk up to the shabbir & company.

**Ward No. – 17 Rammaiya Ward**

- North - From fish farming pond to dalpat sagar band upto sulabh.  
 East - From Sulabh to Sardar lakadi dipo.  
 South - From the four walls of Sardar lakadi dipo Bhola Jha, from Bhavani chat up to house of Haddin Nayak.  
 West - From the house of Haddin Nayak, from the house of Ram prasad patel up to the Dalpat sagar band.

**Ward No. 18 Dalpat Sagar Ward**

- North - From the right side of Hanuman mandir, samund chowk (talab band) up to the Sulabh.  
 East - From Talab band to Sulabh at the right side of Rammiya ward across the road up to the Haddin Nayak's house, from the side gali of kanahiya kirana in chitrakot road, from the house of Dharampal Mahawar up to the house of B.R. Pradhan.  
 South - From the B. R. Pradhan's house and I.H.S.D.P awash to Lagu colony  
 West - Crossing the road from Kapoor lawn and Lagu colony, straight from the Dr. Mouray to Talab band.

**Ward no. 19 Pt. Dindayal Upadhayay Ward**

- North - Kanahiya kirana shop to Anupama talkies to Manorama nursing home.  
 East- In Geedam road from Manorama nursing home and Bharat tractor servicing center up to Gousiya Masjid.  
 South- Up to Gausiya Masjid.  
 West- From the pump house to the gali of Gousiya Masjid, from Nigam shop to the house of Sarif khan, from success convent and Patiya Pushtak office up to the shop of Kanhiya.

**Ward no.20 Maa Danteswari Ward**

- North- Bhola Jha house to Vidya Sagar house.  
 East- Starting from the park chowk to Bhola Jha house, from the house of Vicky Thakur up to the house of Goel from Premvati's house and Gousiya Masjid.  
 South- From the house of Goel's house upto the open area.  
 West- From the Christ college to the right side of I.H.S.D.P. awash up to the house of B.R. Pradhan.

**Ward No. 21 Dr. Rajendra Prasad Ward**

- North- Crop field from the north shore of Danteshwari ward, up to Sai auto from the right side of the house of Dr. Kashyap. From the right side of Goyal mill up to the house of Narayan Rao.
- East- Starting from the east of Vidya Jyoti School up to Goodwill Tractor whole of the right side.
- South- Starting from Goodwill Tractor agency, Maharani Govt. Girls School-02, UdayKanth Jha on the south east via Lalan Kirana Stores in Bahadur Guda Marg upto Railway line area.
- West- East limit of Chatrapati Shivaji Ward open Agricultural area upto Parpa Forest Naka.

**Ward NO. 22 Mahatma Gandhi Nagar Ward**

- North- Starting from Mahatma Ghandhi school via Guru Govindsingh chowk up to right side of Mukhyamantri swavlamban yogana shop no.1.
- East- Starting from the shop of Mukhyamantri yogana via R.K Marbal up to court chowk (choice centre).
- South- Starting from choice centre via Jila Panchayat office to the end of Ashoka hotel.
- West- Walking right and right from the Ashoka hotel, from the merd of ganga munda talab, from the grocery store to Raju Vishwakarma kirana to Mehar Singh's house, from the front of Mushtak Ali's house to Mehar singh's apartment to the Narayanlal house.

**Ward No. 23 Ganganagar Ward**

- North- Starting from Shri Sheetala Hotel up to Shri Harison Das house in Geedam road.
- East- Starting from Shri Sheetal Gupta Hotel through the house of Rukshana Begam and Kashiram Sharma, near the house of Harinath across the Ganga Munda Talab.
- South- Limits of Ganga Munda ward
- West- Starting from Shri Harison Das house via Pump house in Bahadur Guda road up to Ganga Munda Talab.

**Ward NO.- 24 Pt. Jawaharlal Nehru Ward**

- North- Walking from the back of forest nursery railway line right side up to the ganga munda merd to the Bhuvanwati Thakur's house.
- East- Starting from the house of Bhuvanvati Thakur, with the home of Sahadev up to the home of Gurujit Varma. Starting from the house of Gurujit Varma to Prabha Shankar house across the metguda road, from the house Jalil Ahmed up to pump house.
- South- Starting pump house via Bhodghat chowk road way N.H 43 road right side up to paan thela.
- West- Starting from the Paan Thela, Jawahar Nagar school via Laxman Rao's house again upto forest nursery.

**Ward No. – 25 Shanti Nagar Ward**

- North- From Lal church, Danteshwari college up to the house of Sajawat (muggu).
- East- Going ahead to the wall of Sajawat's( maggu) house, by the side road of Shakti Singh's house through pump house, from the house of Jyotimani Singh's house to N H Road.
- South- From N H road extended up to bus stand, Isayi Kabristan goes ahead up to Nagar nigam and Jila court.
- West- From Jila court to Lal church.

**Ward No.- 26 Motherteresa ward**

- North- Starting from Bhag Singh house via soma galli via going behind housing board colony ,from the house of Rajkumar's up to the house of Anil Badkas.
- East- From the front of the house of Anil Badkas by crossing the road to the house of Thakur from the left side of Chopra's house.
- South- From the house of Thakur and front of Panchayat Bhavan up to L.R. Singh house.
- West From the house of L.R. Singh up to the Soma gali.

**Ward NO.- 27 Maata Santoshi Ward**

- North- Starting from the right side of kumhar para road via Shailendra Kundu house up to Dandami Madiya chowk.
- East- Starting from the right of Dandami Madiya chowk via by pass road upto Anima Bi ,.Abdul Rashid house.
- South- Starting from Anima Bi, Abdul Rashid via Arun Tripathi house up to D.K Parasar's house .
- West- In the right of Dandkaraniya press road ,from D.K Parasar's house via to the right of Kushwaha house and from the house of Kushuwaha in western north C C road via Khetmal bhurad house upto Babulal house to Shailendra's Kundu house.

**Ward No. 28 Guru Ghansidas Ward**

- North- Starting from west corner of Jamal Mill via backside of Kosa Center via Shri Dharendra Nath Vyaid's house, via Bhawani Chowk up to house of Bhanjman Rathor.
- East- From the house of Bhanjman to the house of Munnalal.
- South- Crossing the road from Munnalal's house on the right side of Nigam shop up to the tiraha of Jamal mill..
- West- Tiraha of Jamal Mill.

**Ward no.- 29 Dr. Bhimrao Ambedkar Ward**

- North- Starting from Tiranga chowk via Pathak house up to right of Kabir chowk.
- East- Starting from the right of Kabir chowk via Chandan Rathore chaat's house up to Sheetal Gupta's house.
- South- In the right side of Sital Gupta's house up to Kosi Thomas house.
- West- Starting from Koshi Thomas house via Raju auto care shop's to Tiranga chowk (Patak's house)

**Ward No. 30 Swami Vivekanand Ward**

- North- From the four walls of Airport to the left corner of the house of Jains pani, up to Airport wall to Rampravesh Sharma house.
- East- Starting from the Ramlalla servicing center to U R Dehari's house, up to Jaipuriya hotel from the house of Chandrama nursing.
- South- Jaipuriya hotel, withstand form the house of Shri Ram Chand up to Shri Shek Mahmud's house.
- West- Starting from Shri Shek Mahmud's house upto Airport.

**Ward No. 31 Thakur Anukuldev Ward**

- North- Starting from Smt. Raimati's house via Shri Padam Singh's house up to Santosh Kirana Stores via Home Gaurd Camp up to Karkapal Railway line.
- East- Goriya Bahar Nala.
- South- Railway Line.
- West- Arakchhit (Reserved) Forest Area and Pt. Sunderlal Sharma Ward is the limit.

**Ward No. 32 Pt. Sunderlal Sharma Ward**

- North- Starting from west corner of Airport via Shiv Mandir via Shri Shirish Behara's house in Bhodghat up to Shri R.C. Khatri's house, then continue up to Late Shri Pola Singh's house road ward limit.
- East- Starting from south corner of Airport, via Arakchhit (Reserved) Forest area up to Railway line.
- South- Railway Line.
- West- Starting from Railway Line up to Late Shri. Pola Singh house near Hanuman Mandir in three-path way road.

**Ward no. 33 Rajiv Gandhi Ward**

- North- Starting from the boundary wall of the field situated in front of Nagar Nigam shop's extended to the Gurunanak Steel factory up to Vimal Associate.
- East- Starting from right of Vimal Associate Rice Mill to the back of tayer shop via again to the right of Badal Sarkar house, Ajay Singh house via up to Rajaram Singh Thakur's house.
- South- Starting from Rajaram Singh Thakur house to Thamas kirana shop to the house of bhag via Tirupat Jhadi house to the C C road..
- West- Starting from Dharam Ashtha Kunj extended up to the road of the boundary wall of the field situated in front of Nagar Nigam shop.

**Ward No.-34 Sanjay Gandhi Ward**

- North- Starting from Meena laundry via walking through purana Bodghat police road to Roshan Kirana store.
- East- Starting from Bodghat chowk via Roshan kirana store, Sargipal road upto right of railway gate.
- South- Starting from railway gate via Nagar Nigam seema upto railway station.
- West- Starting from railway station up to Meena laundry.

**Ward No. 35 Chhatrapati Shivaji Ward**

- North- Starting from the Shankar mandir on main road in Chitrakoot road up to the house of Varma from the house of Kundal Rao to the right side of Manovikash Vidayaly.
- East- Up to the house of Kalavati from the house of Varma and Dr. Kashyap's house and Bailadila state house.
- South- Starting from right corner of Kalavati's house , from Kabrasthan to the right side of the house of Susma Kashyap up to back of Shishu mandir .
- West- Starting from the right side of Shishu mandir from Pandri talab to M P M hospital up to main road Shankar mandir.

**Ward No.- 36 Guru Govind Singh Ward**

- North- From the right side of Hiranwaar 's house upto Rupa cycle shop from Kailash hotel.
- East- From the shop of Rupa cycle shop and purva Madhayamik Shaala Aghanpur up to the house of Koreen Jappan.s house.
- South- From the west of house of Koreen Jappan up to the house of Gopal Bharajdwaj.
- West- Starting from the front of Gopal Bharajdwaj house from the left side of green city to the house of Hiranwar.

**Ward NO.- 37. Lokmanya Tilak Ward**

- North- Starting from right of Palli Naka via Dharampura No.-2 via Sankar mandir upto Urvashi Pandey's house.
- East- Starting from the right of Devigudi L.I.C road up to right of Narmunda talab.
- South- Starting from the Narmunda talab to the right of Reserve Forest.
- West- From Reserve forest to Pallinaka.

**Ward NO.- 38 Atal Bihari Vajpayee Ward**

- North- From Kalipur talab to the house of Sarita Yadav.
- East- From the house of Sarita Yadav up to the hanuman mandir, extended up to dalpat sagar band to Dr. mourya's house.
- South- From Dr. Mourya's house to Puratatav vibhag karyalay.
- West- From the right of Puratatav vibhag karyalay, Alok Ray house to the right of marghat to Durga Mandap extended up to Kalipur talab.

**Ward No.-39 Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward**

- North- From the right side of Nagar Nigam Karamchaari Bhawan Veersawarkar bhavan to the behind of surya mandir, up to the house of vinod Kukade.
- East- From the house of Vinod Kukade's house up to the house of Nirmal Durjan, Mohna adhvakta marg to the Jamal mill road.
- South- From the left of Patel Saw mill, Jamaal mill road to the right side of Saheed Park up to the P W D quater.
- West- From P W D quarter to the shop of Nigam up to the Nagar Nigam Karamchari bhavan.

**Ward No.-40 Dr. A P J Abdul Kalam Ward**

- North- Behind Suvardhan's house, from the four wall of suncity, from the wall of Samant Mahavir Grah Nirmaan samiti straight to the south corner of Indravati tylies, across Rashtriya Rajmarg to Goriya Bahar Canal.
- East- Up To Goriya Bahar canal.
- South- From Goriya Bahar canal across Ratriya Rajmarg up to the four wall of Airport.
- West- From the corner north wall of Airport, from the open field of Shri Hemani, from the house of Smt. Tripura Tiwari, from the house of Swyama Das (Jamal mill road) up to the house of Suvardhan (Mona Adhvakta gali).

**Ward No.-41 Chandra Shekhar Azaad Ward**

- North- From Harihar bajaar, Dream India School, Chitra Gupat Mandir, Sarakari Quarter, From the house of Shrikant Acharya to the house of Kuldeep Singh up to N H 30.
- East- From N H 30 to Sainath Commercial.
- South- From the front road of Nagar Nigam Karamchaari bhavan, Badaa Naala, Border of Mohan Maharaj house, Suncity, Surya mandir extended to the whole area of Atal awash..
- West- From Harihar Bajar to Nirmal Vidyalay up to the front road of Nagar Nigam Karamchaari Bhavan.

**Ward No.- 42 Mahendra Karma Ward**

- North- Starting from Noor mohammad house to Kanker Valley Rastriya udayaan via across the road of Kaali badi up to Manoranjan Rai's house.
- East- Starting from Phulchandra Sarthi house via to the left of Ram dev mandir gali up to Noor Mohammad house.
- South- Rajesh Tantarate house via Suresh Arora house up to Phulchand Sharthi's house.
- West- Manoranjan Rai house via Bangai Samaj bhavan in kalibadi road chowk Kalawati Patnaik's house up to Rajesh Tantarate house.

**Ward No.-43 Baliram Kashyap Ward**

- North- Starting from the right of Krishna Soni,s house( highway channel road),from the left side of Sai mandir, moving towards the office of Samir Choudhary advocate up to the house of Prakashchandra Jain.
- East- Nagar Palik Nigam Yatri pratikshalay(by pass road) side to where house upto left side of saket colony to the end of the wall.
- South- From last corner of saket colony boundary via bodhgat chowk up to the right of Akashwani residential area.
- West- From the right of Akashwani residential area (Vipra), up to house of Krishna Soni

**Ward No.-44 Madan Mohan Malviya Ward**

- North- From right of collector road Methodist church up to the boundary wall of Commissioner office.
- East- Starting from behind of Commissioner office via from right of Pathak shop up to Neelmani house up to Patrika office (Kishan bakery).
- South- Behind the right corner of Patrika office up to the house of Masih Das house ( sharon beuty parlor) .
- West- From the left corner of the house of Masih Das, from the gali of soma and nursing chhatrawas from A.B.M mission school up to the boundary wall of Commissioner office.

**Ward No.-45 Shahid Gundadhur Ward**

- North- From Prince welding shop via Choudhary cement up to Atithi hotel, Reekha Hotel up to the boundary wall of Gondi.
- East- From the boundary wall of Goundi, Sundar Poyam's house, from the side gali of Kerala samaj, from the boundary wall of Ammilal, to the provision shop of Sao.
- South- From the shop of Sao extended up to the house of Tiwari.
- West- From the house of Tiwari, from the side road of Maranatha church, from the C C road in front of the house of Shrivastav, from the bodhghat colony road up to Prince welding.

**Ward No.-46 Sardar Vallabhbhai Patel Ward**

- North- Ganga Munda Merd (Somaru Ram's house) via Sanjay Mishra's house up to Tarakanth Jha's house..
- East- Tarakant Jha house to Sangeet Vidyalay.
- South- From Sangeet Vidyalay the side of tractor agency to Abhinandan Park road to the house of Devendra Thakur up to the house of Mohan Thakur.
- West- From the house of Mohan Thakur up to the house of Somaru Ram.

**Ward No.-47 Maharana Pratap Ward**

- North- From Rajat Jayanti Dongri via from the left side of the house Narayan Kumar via Jain kirana store to Prathamik Saala to the left corner of the Gitti khadaan up to house of Sikandar Singh.
- East- From the left of the house of Sikandar Singh to panchave bataliyan in geedam road up to balaji cold storage .
- South- To the right of the crop field, From behind the Balaji cold storage upto Khapra Bhatti.
- West- From Khapra Bhatti upto Rajat Jayanti Dongari naarmunda talab.

**Ward No.-48 Kushabhau Thakre Ward**

- North- From the back of Atal Awash, from Krida Parisar to Resham board to Kalipur Talab Road up to Durga Mandap chowraha.
- East- From the north of Durga Mandap Chowraha to the house of Umesh Panigrahi up to Gramin bank.
- South- From Gramin Bank up to Thakur kirana store [chitracot road].
- West- From Thakur Kirana shop, Negiguda chowk again up to kalaipur atal awaas.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R.EKKA, Deputy Secretary.